



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

27 आश्विन 1937 (श10)

(सं0 पटना 1228) पटना, सोमवार, 19 अक्टूबर 2015

पथ निर्माण विभाग

अधिसूचना

1 जुलाई 2015

सं0 प्र06/नियम-03-04/2002(फोल्डर)-5932(S)—पथ निर्माण विभाग की अधिसूचना संख्या-5737(एस) दिनांक 07.05.2007 द्वारा बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 निर्गत है जो विभागीय पत्र संख्या-13211(एस) अनु0 दिनांक 16.10.2008 द्वारा राज्य के अन्य सभी कार्य विभागों के लिए भी लागू है। विभागीय अधिसूचना संख्या- प्र0 6/नियम-03-04/2002-13589(एस) दिनांक 13.12.2011 सहपठित ज्ञापांक 13590 (एस) दिनांक 13.12.2011 द्वारा बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 के नियम-2 में श्रेणी-3 के बाद श्रेणी-4 जोड़ा गया है तथा इस श्रेणी को स्थानीय अभिकर्त्ता श्रेणी कहा गया है। श्रेणी-4 के अन्तर्गत निबंधित संवेदक जिस जिला में निबंधित हैं, उस जिला के 25 लाख तक के सभी कार्यों में निविदा देने के लिए सक्षम हैं।

2. राज्य सरकार द्वारा श्रेणी-04 के संवेदकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 एवं विभागीय अधिसूचना संख्या-13589(एस) दिनांक 13.12.2011 में निम्न संशोधन किये जाते हैं :-

2.1 (3) स्थानीय अभिकर्त्ता श्रेणी (श्रेणी-04) में निबंधन शुल्क के रूप में 2000.00 (दो हजार) रुपये देय होगा।

2.2 बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) (संशोधन) अधिनियम 2002 - (बिहार अधिनियम- 17/2002) के अन्तर्गत आरक्षण की पात्रता रखने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़े वर्ग की महिला सदस्य निबंधन हेतु आवेदन पत्र (अनुलग्नक-1) में जाति का नाम, आरक्षित कोटि की

सूचना अंकित करेंगे तथा अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करेंगे। आरक्षित कोटि के संवेदक के ठीकेदारी निबंधन प्रमाण-पत्र में आरक्षित कोटि का उल्लेख रहेगा ताकि प्रत्येक बार निविदा के समय जाति प्रमाण-पत्र संलग्न करने की अनिवार्यता नहीं रहे।

2.3 आरक्षित कोटि के वैसे संवेदक, जिनका श्रेणी-04 में पूर्व से वैध निबंधन है, वे आरक्षित कोटि के लिए सुरक्षित कार्यों में भाग लेने के लिए सक्षम होंगे। परन्तु वैसे संवेदकों को निविदा के साथ अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा।

2.4 पंजीकरण के समय निम्नलिखित कागजात जमा करना होगा :-

- (क) प्रपत्र 'क' एवं 'ख' (अनुलग्नक-1 के रूप में संलग्न) में आवेदन पत्र
- (ख) PAN रजिस्ट्रेशन की अभिप्रमाणित प्रति
- (ग) आवेदन पत्र में अंकित पता का साक्ष्य (Address Proof) की अभिप्रमाणित प्रति।
- (घ) निर्धारित शुल्क का बैंक ड्राफ्ट "कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग ..... (संबंधित स्थान विशेष) के पक्ष में भुगतये हो।
- (च) जाति प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति जो अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत हो।

2.5 (4)(क) श्रेणी-1, 2 एवं 3 के लिए निबंधन पाँच वर्षों के लिए अनुमान्य होगा। परन्तु स्थानीय अभिकर्त्ता श्रेणी (श्रेणी-04) का निबंधन 10 वर्ष के लिए अनुमान्य होगा।

इस अवधि के दौरान श्रेणी दो एवं तीन में पंजीकृत संवेदक यदि चाहें तो श्रेणी एक में अतिरिक्त शुल्क जमा कर निबंधित हो सकते हैं। ऐसा करने पर उनकी निचली श्रेणी का पंजीकरण स्वतः रद्द समझा जाएगा।

2.6 (7) नवीकरण:- श्रेणी-1, 2 एवं 3 के लिए पाँच वर्ष के अवधि के बाद पुनः कंडिका 3 (बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 के प्रासंगिक अधिसूचना) में दिये गये शुल्क को जमा कर नवीकरण कराया जा सकेगा। स्थानीय अभिकर्त्ता श्रेणी (श्रेणी-04) के लिए 10 वर्ष की अवधि के बाद पुनः उक्त कंडिका 2.1 में प्रावधानित शुल्क जमा कर नवीकरण कराया जा सकेगा।

सभी श्रेणी हेतु नवीकरण के लिये आवेदन पत्र निबंधन समाप्त होने के एक माह पूर्व दिया जाना होगा।

2.7 आवेदन पत्र:- इच्छुक आवेदक प्रपत्र-'क' (अनुलग्नक-1) में उल्लेखित प्रपत्र को भरकर आवेदन देंगे। निबंधन पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र-'ख' में उल्लेखित निबंधन प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा।

2.8 बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007, विभागीय अधिसूचना संख्या-13589 (एस) दिनांक 13.12.2011 एवं इससे संबंधित निर्गत अन्य सभी निदेश यथावत लागू रहेगा।

3. उक्त कंडिका-2 एवं संबंधित अन्य उपकंडिकाओं में निरूपित प्रावधान में परिलक्षित त्रुटि या कठिनाई का परिमार्जन करने तथा उपबंध के अनुरूप कार्यान्वयन संबंधित दिशा निदेश निर्गत करने हेतु पथ निर्माण विभाग प्राधिकृत होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
रमा कान्त प्रसाद,  
संयुक्त सचिव(प्र0को0)।

अनुलग्नक-1

स्थानीय अभिकर्ता श्रेणी (श्रेणी-04) में ठीकेदारों के निबंधन/नवीकरण के लिए आवेदन पत्र  
प्रपत्र - "क"

1. आवेदक का नाम :- .....
- 1.1 पिता का नाम :- .....
- 1.2 जन्म तिथि :- .....
- 1.3 राष्ट्रीयता :- .....
- 1.4 जाति का नाम (बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण  
(अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए)  
संशोधन अधिनियम 2002 - (बिहार अधिनियम-17/2002) के  
अन्तर्गत यदि आरक्षण की पात्रता रखते हों तो ही जाति का नाम  
उल्लेख करना है) :-.....
- 1.5 आरक्षित कोटि (अनुसूचित जाति/  
अनुसूचित जनजाति/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/  
पिछड़ा वर्ग/पिछड़े वर्ग की महिला):- .....
- 1.6 पत्राचार का पूरा पता :- .....
2. मुखतारनामा धारण करने वाले व्यक्ति का नाम.....  
.....  
(मुखतारनामा की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न की जाय)
- 2.1 राष्ट्रीयता .....
3. क्या आवेदक का नाम काली सूची में दर्ज है अथवा निलंबित है  
या पूर्व में निलंबित हुआ है अथवा काली सूची में दर्ज हुआ है  
तो सूचना.....
4. निबंधन शुल्क जमा करने के संबंध में विवरणी:-

आवेदक का अभिप्रमाणित  
फोटो

आवेदक के पावर ऑफ  
अटार्नी धारण करने वाले  
व्यक्ति की अभिप्रमाणित  
फोटो

बैंक ड्राफ्ट संख्या एवं दिनांक ..... मूल्य.....

बैंक का नाम-.....

तिथि

आवेदक का हस्ताक्षर  
(नाम सहित)

## प्रपत्र-"क" (पृष्ठ-2)

- (1) निबंधित ठीकेदार वैसे प्रमंडल में निविदा दाखिल करने के हकदार नहीं होंगे जिसमें उनकी नजदीकी संबंधी, प्रमंडलीय लेखापाल या कनीय अभियंता से अन्यून पंक्ति के पदाधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। किसी ठीकेदार द्वारा इस शर्त का उल्लंघन निबंधन सूची से नाम हटाने के लिये पर्याप्त होगा। नजदीकी संबंधी पद से अभिप्रेत है पति/पत्नी/माता/पिता/भाई अथवा बहन।
- (2) मैं प्रमाणित करता हूँ कि मेरा नाम ठीकेदार के रूप में किसी भी विभाग के किसी भी श्रेणी में निबंधित नहीं है।

तिथि

आवेदक का हस्ताक्षर  
(नाम सहित)

महत्वपूर्ण सूचनाएँ:-

आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित संलग्न करें।

1. PAN कार्ड की छाया प्रति किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित।
2. आवेदन पत्र में चिपकायी गयी फोटो को भी किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित करायें।
3. अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें(यदि लागू हो तब)।
4. पता के समर्थन में साक्ष्य (Address Proof)(मतदाता पहचान-पत्र/आधार कार्ड/ड्राईविंग लाइसेन्स/ बैंक पास बुक/ विधुत विपत्र/राशन कार्ड की अभिप्रमाणित प्रति।
5. बैंक ड्राफ्ट मूल में संलग्न करें।
6. यदि मुख्तारनामा है तो उसकी अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें।

कार्यालय उपयोग के लिए

उपर्युक्त श्री..... जाति .....  
 आरक्षित कोटि (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग/पिछड़े वर्ग की महिला)  
 (यदि लागू हो तब अन्यथा काट दें) पता.....  
 ..... को स्थानीय अभिकर्ता श्रेणी/का0अभि0-श्रेणी-04(चार)  
 (आरक्षित कोटि) (यदि लागू हो तब अन्यथा काट दें) /...../..... वर्ष/पथ का  
 निबंधन दिनांक..... से ..... तक के लिए रुपये  
 .....(डिमांड ड्राफ्ट संख्या..... दिनांक..... बैंक का  
 नाम.....) में किया गया।

उपर्युक्त आवेदक के मुख्तारनामा के संबंध में दर्ज किया गया कि उपर्युक्त श्री.....  
 द्वारा श्री..... पता..... को पावर ऑफ अटॉर्नी प्रदान  
 किया गया है।

दिनांक

सक्षम पदाधिकारी/  
 निबंधन करने वाले पदाधिकारी  
 हस्ताक्षर (मुहर सहित)

प्रपत्र - "ख"

कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल..... का कार्यालय

पथ निर्माण विभाग

स्थानीय अभिकर्ता श्रेणी (श्रेणी-04) का निबंधन प्रमाण-पत्र

श्री.....  
पता .....  
.....  
.....

जाति.....

आवेदक का अभिप्रमाणित  
फोटो

आवेदक के पावर ऑफ  
अटार्नी धारण करने वाले  
व्यक्ति की अभिप्रमाणित  
फोटो

आरक्षित कोटि (अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/ पिछड़ा वर्ग/पिछड़े वर्ग की महिला) को स्थानीय अभिकर्ता श्रेणी/का0अभि0-श्रेणी -04(चार) (आरक्षित कोटि)(यदि लागू हो तब अन्यथा काट दें) /आरक्षित कोटि का नाम/निबंधन संख्या वर्ष/पथ में अवधि दिनांक..... से ..... (.....अवधि शब्दों में.....) तक के लिए कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग.....प्रमंडल का नाम..... के द्वारा संवेदक के रूप में निबंधित किया जाता है। निबंधित संवेदक ..... (जिला का नाम) के अन्तर्गत सभी कार्य विभाग, योजना एवं विकास विभाग के अन्तर्गत स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, निगम, उपक्रम, प्राधिकरण, परिषद एवं निकाय के सभी कार्यों में निविदा में भाग लेने के लिए योग्य होंगे।  
दिनांक

आवेदक का हस्ताक्षर

सक्षम पदाधिकारी/  
निबंधन करने वाले पदाधिकारी  
हस्ताक्षर (मुहर सहित)  
दूरभाष -  
ई-मेल पता -

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 1228-571+1000-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>